



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखंड 3 (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ३१५] नई दिल्ली, शनिवार, सितंबर १५, १९७३/भाद्र २४, १८९५  
No. ३१५] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 15, 1973/BHADRA 24, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 15th September 1973

### ORDER

S.O. 489(E)/IDRA/18G/73.—In exercise of the powers conferred by Section 18G and Section 25 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) and all other powers enabling it in this behalf, the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Cement Control Order, 1967, namely:—

1. (1) This Order may be called the Cement Control (Fourth Amendment) Order, 1973.

(2) It shall come into force with effect from 15th September, 1973.

2. In clause 8 of the Cement Control Order, 1967 (hereinafter referred to as the said Order)—

(i) in item (a) for the figures "164.00" the figures "174.00" shall be substituted;

(ii) in item (b) for the figures "141.00" the figures "151.00" shall be substituted.

3. For the Schedule to the said Order, the following Schedule shall be substituted, namely—

#### THE SCHEDULE

(See clause 7)

	Name of the Producer	Price per Metric Tonne Rs.
Ex-factory price.	1. M/s. Travancore Cements Ltd., Kottayam	130.25
	2. M/s. Assam Cements Ltd., Cherrapunji	133.50
	3. Shree Digvijay Cement Co., Ltd.	
	(i) ex-Sewree Works	172.20
	(ii) ex-Ahmedabad Works	138.70
	In the case of clinker moved by sea from Sikka to Bombay, payment of wharfage charges paid at Sikka may also be allowed.	
	4. All other producers.	110.00

(1681)

In the case of rapid hardening cement and low heat cement, an additional price of Rs. 12 per metric tonne may be added to the price specified above.

[No. 1-23/73-Cem.]  
D. K. SAXENA, Jt. Secy.

### औद्योगिक विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 मिनम्बर, 1973

#### आदेश

का० आ० 489(अ)/आई०डी०आर०ए०/18जी/73 :—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 जी तथा 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस मामले में इसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात् :—

1. (1) यह आदेश सीमेंट नियंत्रण (चौथा संशोधन) आदेश, 1973 कहलायेगा।  
(2) यह दिनांक 15 मिनम्बर, 1973 से लागू होगा।
2. सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 के खण्ड 8 में (जो एतस्मिन् पश्चात् उक्त आदेश के रूप में उल्लिखित होगा)  
(1) मद (क) में "164. 00" संख्या के स्थान पर "174. 00" संख्या रखी जायेगी।  
(2) मद (ख) में "141" संख्या के स्थान पर "151" संख्या रखी जायेगी।
3. उक्त आदेश में सूची के स्थान पर, निम्नलिखित सूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

#### सूची

(खण्ड 7 देखें)

निर्माता का नाम		प्रति मी० टन मूल्य रु०
कारखाने से निकलने समय का मूल्य	1. मे० ट्रावनकोर सीमेंट लि०, कोट्टायम	130. 25
	2. मे० ग्रामाम सीमेंट लि०, चेरापूँजी	133. 50
	3. श्री दिग्विजय सीमेंट कं० लि०	
	(i) शिवड़ी कारखाने से निकलने समय	172. 20
	(ii) अहमदाबाद कारखाने से निकलने समय	138. 70
	क्लिकर सिकका से बम्बई समुद्र द्वारा ले जाने के मामले में सिकका में दिया गया घाट भाड़े (वार्फेज) के भुगतान की भी अनु- मति दी जाती है।	
	4. अन्य सभी निर्माता	110. 00

जल्दी कड़ा हो जाने वाला सीमेंट और निम्न-नाप सीमेंट के मामले में, उपर्युक्त निर्दिष्ट मूल्य में प्रति मी० टन 12 रु० का अनिवार्य मूल्य जोड़ा जाए।

[सं० 1-23/73-सीमेंट]

डी० कं० सक्सेना, संयुक्त सचिव।